



Registration and Stamp Department  
Madhya Pradesh

Registration Certificate

Registration Details

E-Registration Number	MP179112022A11274623
Registration Date	21/12/2022
Date of Printing e-Registration Certificate	22/12/2022
Market Value of Property (If Applicable)	2061936
Consideration / Secured / Premium Amount (Rs.)	2062000
Registration Fee (Rs.)	61859
Total Stamp Duty (Rs.)	134028
SR Name	Pradeep Sortey
SRO Name	SUB REGISTRAR OFFICE SANWER

Buyer-Self

Organisation Name सावित्री पैकेजिंग (SAVITRI PACKAGING) तर्फे प्रोपराईटर  
Authorized Person's Name दीपक गोयल  
Address 74, रॉयल बंगलो के पास स्वास्थ्य नगर इंदौर जिला इंदौर , INDORE, Madhya Pradesh, INDIA

Seller-Self


Name महेश चौहान  
Father/Husband's Name मांगीलाल चौहान  
Address न्यू रेवती नगर भंवरामला इंदौर जिला इंदौर , INDORE, Madhya Pradesh, INDIA

Digitally signed  
by SORTEY  
PRADEEP  
Date: 2022.12.22  
14:46:23 IST




21/12/22

Signature of Sub-Registrar



5





Registration and Stamp Department  
Madhya Pradesh



Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code 01011720122022019697  
Total E-Stamp Amount 134028  
Govt. Stamp Duty (Rs.) 103098 Municipality Duty (Rs.) 0  
Janpad Duty (Rs.) 20620 Upkar Amount (Rs.) 10310  
Exempted Amount(Rs.) 0

E-Stamp Type NON-JUDICIAL  
Issue Date & Time 20/12/2022 19:57:45  
Service Provider or Issuer Details Rahul Surana/SP011743005201500378  
SP/SRO/DRO/HO Details RAIJUL SURANA, JAI BHOLE COMPUTERS, NEW MARKET TEHSIL CHOKI  
SANWER, DIST INDORE 9893332893 SANWER INDORE

Deed Details

Deed Type Conveyance  
Deed Instrument Conveyance- not being a transfer charged or exempted under No.61- Five percent on the value of the property as per market value guideline and in case actual consideration or market value whichever is higher, is in excess of it, the duty chargeable on the excess part shall be 1 percent.  
Purpose Conveyance


First Party Details


Name महेश चौहान  
Address न्यू रेवती नगर भंवरासला इंदौर जिला इंदौर  
Number of Persons 1

Second Party Details

Organization Name सावित्री पैकेजिंग (SAVITRI PACKAGING) तर्फे प्रोपराईटर  
Address 74, रॉयल बंगलो के पास स्वास्थ्य नगर इंदौर जिला इंदौर  
Number of Persons 1

विक्रय-पत्र







राजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

- : विक्रय-पत्र :-

विक्रेतापक्ष का नाम व पता :-

महेश चौहान पिता मांगीलाल चौहान  
निवासी :- न्यू रेवती नगर भंवरासला इंदौर जिला इंदौर  
आधार कार्ड न. :- 3063 4839 7417

क्रेतापक्ष के नाम व पता :-


सावित्री पैकेजिंग (SAVITRI PACKAGING) तर्फे प्रोपराईटर  
दीपक गोयल पिता कृष्णमुरारी गोयल  
निवासी :- 74, रॉयल बंगलो के पास स्वास्थ्य नगर इंदौर जिला इंदौर  
आधार कार्ड न. :- 4186 5907 8436 पेन कार्ड न. :- ABQPG0441A


सदर विक्रय-पत्र प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशी प्राप्त कर लिख देने वाले महेश चौहान पिता मांगीलाल चौहान को इस विलेख मे आगे सुविधा की दृष्टि से " विक्रेतापक्ष " के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशी अदा कर सदर विक्रय-पत्र लिखवा लेने वाले सावित्री पैकेजिंग (SAVITRI PACKAGING) तर्फे प्रोपराईटर दीपक गोयल पिता कृष्णमुरारी गोयल को इस विक्रय-पत्र मे सुविधा की दृष्टि से " क्रेतापक्ष " के नाम से सम्बोधित किया गया है। सदर विक्रय-पत्र विक्रेतापक्ष आज रोज अपनी स्वेच्छा से क्रेतापक्ष के हित एवं पक्ष मे निष्पादित कर विधिवत पंजीयत करा देते है ऐसा कि :-

(1) यह कि, विक्रेतापक्ष के भूस्वामीस्वत्व हक्क हिस्से एवं आधिपत्य की ग्राम चितोड़ा तहसील सांवेर जिला इन्दौर म. प्र. पटवारी हल्का नंबर 04 विकासखंड सांवेर मे सर्वे नं 126/1/3/2 रकबा 1.583 हेक्टेयर लगान रु., की कृषि भूमि स्थित है। सदर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड व भू-अधिकार ऋणपुस्तिका न. CLR 11025582112 मे विक्रेतापक्ष के नाम से दर्ज होकर सदर भूमि को अंतरित हस्तांतरित व विक्रय करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार विक्रेतापक्ष को प्राप्त है। विक्रेतापक्ष द्वारा उपर वर्णित कृषि भूमि में से सर्वे नं 126/1/3/2 पैकी रकबा 0.774 हेक्टेयर भूमि अपने हक्क हिस्से व आधिपत्य की इस विलेख के द्वारा क्रेतापक्ष को विक्रय की है :-

विक्रेतापक्ष द्वारा विक्रीत भूमि का विवरण :-

सर्वे नं 126/1/3/2 पैकी रकबा 0.774 हेक्टेयर





गंभ्रग्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

प्रस्तुति मुद्रा :

सावित्री पेकेजिंग (SAVITRI  
PACKAGING) तर्फे प्रोपराईटर

प्रतिनिधित्व:- दीपक गोयल




21/12/22



के द्वारा उप जिला सांवेर जिला इंदौर के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 21/12/2022 को मध्याह्न पूर्व/मध्याह्न पर्याप्त  
01:03:05 बजे प्रस्तुत किया गया।

Pradeep Sortey  
Sub Registrar  
SUB REGISTRAR OFFICE  
SANWER





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

(2) यह कि, विक्रेतापक्ष ने चरण क्रमांक 1 में वर्णित अपने भूस्वामीस्वत्व, हक्क हिस्से व आधिपत्य की भूमि सर्वे नं 126/1/3/2 पैकी रकबा 0.774 हेक्टेयर भूमि की बिक्री क्रेतापक्ष को मय भूमि स्वामी स्वत्व तथा मालकाने हक्क सहित कीमत रूपये 20,62,000/- अक्षरी बीस लाख बासठ हजार रु. में की होकर विक्रेतापक्ष ने कीमत के चुकते रूपये क्रेतापक्ष से गवाहों के समक्ष निम्नानुसार प्राप्त कर ली है।

रूपये 20,54,000/- अक्षरी बीस लाख चौपन हजार रूपये मात्र विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष के चेक क्रमांक "923027" के द्वारा दिनांक 08/12/2022 को प्राप्त कर लिए है।  
रूपये 8,000/- अक्षरी आठ हजार आज दिनांक को नगदी प्राप्त।

उपरोक्तानुसार विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण राशी विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से प्राप्त हो जाने से अब इस विक्रय व्यवहार बाबद कोई राशी क्रेतापक्ष से लेना शेष नहीं रहा है।


(3) यह कि विक्रेतापक्ष द्वारा बिक्रीत कृषि भूमि को इस विक्रय पत्र में सभी आवश्यक स्थानों पर सुविधा एवं सक्षिप्तता की दृष्टि से "विक्रय भूमि" शब्द से संबोधित व उल्लेखित किया गया है।


(4) यह कि विक्रय भूमि का रिक्त एवं मूर्तिमंत आधिपत्य विक्रेतापक्ष ने साक्षीगणों के समक्ष क्रेतापक्ष को सौंप दिया है क्रेतापक्ष द्वारा इस पर मालिक नाते से अपना आधिपत्य कर लिया है अब क्रेतापक्ष इस विक्रय भूमि का स्वेच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग व अन्तरण आदि कर सकेगे। इसमें विक्रेतापक्ष या उसके वारिसान की किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रहेगी।

(5) यह कि विक्रेतापक्ष एतद द्वारा घोषित एवं निश्चित करते हैं कि उक्त संपत्ति उनके द्वारा इस विक्रय से पूर्व तथा क्रेतापक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दान, गिरवी, रहन, जमानत आदि रीति से या अन्य किसी भी रीति से अंतरित या हस्तांतरित की हुई नहीं है और न ही विक्रेतापक्ष द्वारा ऐसे किसी लिखतम या मौखिक वचन या पारिवारिक व्यवस्था पत्र आदि का निष्पादन किया है।

(6) यह कि विक्रय भूमि के लिए विक्रेतापक्ष के स्वामित्व बाबद जो हक्क अधिकार स्वत्व आगम, मार्गाधिकार व सुखाधिकार आदि विक्रेतापक्ष एवं उनके उत्तराधिकारियों में निहित है वे समस्त हक्क अधिकार स्वत्व मालकाना हक्क आगम तथा मार्गाधिकार व सुखाधिकार आदि इस लेख के द्वारा क्रेतापक्ष में वेष्टित हो गये हैं।

(7) यह कि उक्त विक्रय भूमि के लिए वर्तमान में किसी भी प्रकार का पारिवारिक या न्यायिक विवाद आदि लंबित नहीं है और न ही विक्रय भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था का हक्क अधिकार स्वत्व आदि है इस भूमि पर किसी भी वित्तीय निकाय, बैंक, संस्था आदि का किसी भी प्रकार का ऋण भार बोझा आदि नहीं है उक्त संपत्ति समस्त प्रकार के भार बोझा अंतरण आदि से मुक्त है। यदि इस पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण भार अथवा बोझा आदि पाया गया तो उसके निकाल का सव्यय दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा।





रजिस्ट्रारकण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

निष्पादन की मूद्रा

महेश चौहान


पुत्र/आत्मन सांगोलाल चौहान

पता: न्यू रेवती नगर भंवरसला इंदौर जिला इंदौर

स्वीकार करते हैं कि कथित हस्तांतरण-पत्र विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूप 2062000 प्राप्त हो गये हैं तथा रूप 0 उन्हें बेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूप 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी।  
। तारीख 21/12/2022

Pradeep Sortey  
Sub Registrar  
SUB REGISTRAR OFFICE  
SANWER

क्षि







राजस्त्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

(8) यह कि विक्रेतापक्ष ने विक्रय भूमि की विक्री क्रेतापक्ष को योग्य एवं वैधानिक कारणों से की है अपने वारिसों के हक व स्वत्व को खत्म करने की नियत से नहीं की है। विक्रेतापक्ष ने अपने परिवार के हित में सदर भूमि क्रेतापक्ष को बेचान की है। भूमि के इस विक्रय व्यवहार में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है।


(9) यह कि उक्त संपत्ति के विक्रय व्यवहार में सीलिंग एक्ट व मध्य-प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन 1959 की धारा 165 का उल्लंघन नहीं होता है और न ही म० प्र० व्यवर्तित जोत अधिकतम सीमा संशोधन अधिनियम सन 1972 के नियमों व प्रावधानों का उल्लंघन होता है ना ही स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27, 64, म० प्र० व्यवर्तित जोत अधिकतम सीमा संशोधन अधिनियम सन 1974 की धारा 8 द्वारा यथास्थापित धारा 7 की उप धारा 1 का उल्लंघन नहीं होता है। यह कि सदर विक्रय में किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक बाधा या शासकीय पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है।

(10) यह कि, विक्रय भूमि के लिए विक्रेतापक्ष के स्वामित्व बाबद किसी भी प्रकार का विवाद या दोष इस विक्रय पत्र दिनांक से पूर्व के लिए तथा भविष्य में भी पाया गया या इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति या संस्था ने अपना अधिकार सिद्ध किया या इस विक्रय व्यवहार में किसी भी प्रकार की आपत्ति की तो उसके निराकरण का संपूर्ण एवं सव्यय दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा इस कारण से क्रेता पक्ष को किसी प्रकार का खर्च या नुकसानी नहीं लगने देवेगा तथा आपत्ति कर्ता के हस्ताक्षर एवं सहमति करवाने का भी सव्यय दायित्व विक्रेतापक्ष का रहेगा।

(11) यह कि विक्रेतापक्ष ने उक्त विक्रय भूमि के संबंध में कोई मुख्तयारनामा आम या खास किसी भी व्यक्ति या संस्था के हित में किया हुआ नहीं है और न ही ऐसा कोई पावर वर्तमान में प्रभावशील है। यह कि सदर कृषि भूमि की सरकारी तौजी तथा अन्य लगने वाले सब टेक्सेस इत्यादि आज दिनांक तक के विक्रेता देवेगा तथा आगे के लिये क्रेता ने देते जाना है और क्रेता ने सदर कृषि भूमि पर अपना नामांतरण तहसील कार्यालय में तथा अन्य संबंधित शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों में करवा लेना है। क्रेता का नाम दाखल होने में विक्रेता के हस्ताक्षर या बयान की जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वहां विक्रेता क्रेता को अवश्य सहयोग देवेगा।

(12) यह कि क्रेतापक्ष आवेदन देकर सदर विक्रय भूमि को तहसील, पंचायत, पटवारी आदि के रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। विक्रेतापक्ष नामान्तरण की कार्यवाही में क्रेतापक्ष को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा।

(13) यह कि विक्रय भूमि पर जो भी भू-राजस्व होगा वह आज दिनांक तक का विक्रेतापक्ष अटा करेगा आगे से इसके भुगतान का दायित्व क्रेतापक्ष का रहेगा तथा इस विक्रय पत्र में प्रयुक्त किसी भी शब्द वाक्य के या प्रतिश्रव को भविष्य में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये, अधिक विस्तार या व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता पडने पर विक्रेता क्रेता के निवेदन एवं व्यय पर अन्य आवश्यक दस्तावेज, संशोधन पत्र, सहमति पत्र, एडमीशन डीड, शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र, उत्तर आदि के निष्पादन एवं आवश्यकता पडने पर उसको पंजीकृत करवाने के लिये सदैव तत्पर रहेगा।





Registration and Stamp Department  
Madhya Pradesh

Witness Seal:

मुकेश सिंह

S/O दुर्लेश्वर

Address: ब्राह्मणखेडी तहसील सांवर जिला इंदौर


अनिल शुक्ला

S/O राजनारायण

Address: A 12 स्कीम न. 51 इंदौर

की जांच पूर्वक निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख के विषय में की गयी है। तारीख 21/12/2022

Pradeep Soncy  
Sub Registrar  
SUB REGISTRAR OFFICE  
SANWER





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

(14) यह कि, सटर विक्रय भूमि की चर्तुसीमा इस प्रकार है :-

पूर्व में :- रोड |  
पश्चिम में :- मुकेश की भूमि |  
उत्तर में :- विक्रेता की शेष भूमि |  
दक्षिण में :- रोड |


विक्रय भूमि सिंचित भूमि होकर इसमें सिंचाई साधन है। विक्रय भूमि भू-दान बोर्ड या शासकीय पट्टे पर प्राप्त नहीं की है। विक्रय भूमि चित्तोड़ा रोड पर स्थित है। विक्रय भूमि में वृक्ष नहीं है। विक्रय भूमि का स्टाम्प अधि. की धारा 27 अनुसार सही विवरण अंकित किया है। विक्रय व्यवहार में रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22 (क) का उल्लंघन नहीं होता है।

(15) यह कि सटर विक्रयपत्र का संपूर्ण व्यय विक्रेतापक्ष द्वारा वहन किया गया है।

(16) यह कि हम उभयपक्ष यह घोषणा करते हैं कि इस विलेख में वर्णित संपत्ति के संबंध में हमारे द्वारा पूर्ण जाँच की जा चुकी जिससे हम पूर्ण संतुष्ट हैं कि इसके पूर्व हस्तांतरणकर्ता या उसके प्रतिनिधी या समनुदेशित या उसके अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा पूर्व में हस्तांतरित या स्थायी रूप से अन्य सक्रात नहीं किया गया है। यदि ऐसा पाया जाता है तो इसके लिये हम पूर्ण जिम्मेदार रहेगे। सटर संपत्ति शासकीय या पट्टे पर प्राप्त या सार्वजनिक प्रयोजन आदि की न होकर विक्रेता के आधिपत्य एवम् स्वामित्व की है। (17) यह कि संबोधन विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष में एतद् द्वारा उनके वारिस उत्तराधिकारी स्वत्व ग्रहिता हितग्राही उत्तरजीवी समानुदेशित असायनिज नामिनी कानूनी एवं वैध प्रतिनिधि आदि का समावेश है और यह विक्रय पत्र एवं इसकी समस्त शर्तें समान रूप से बंधनकारक रहेगी।

सटर का विक्रय-पत्र मुझ विक्रेतापक्ष ने अपनी राजी खुशी से मन, मस्तिष्क व शरीर की स्वस्थ दशा में रहकर बगैर नशा पानी किये पूर्ण होशो हवास में रहकर के लिखवाकर तथा पढ़वाकर के सुना। सटर विलेख में लिखा गया कुल मजमुन उभय पक्ष के द्वारा दी गई जानकारी अनुसार सही लिखा गया होने से बतौर स्वीकृति अपने अपने हस्ताक्षर गवाहों के समक्ष में किये सौ सनद रहकर वक्त जरूरत काम आवे।

(पक्षकार द्वारा दी गई जानकारी व निर्देशानुसार इस विलेख का प्रारूप मैने तैयार किया है पक्षकारों, गवाहों की पहचान व संपत्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है।)





Registration and Stamp Department  
Madhya Pradesh

Thumb Impression Seal:



*Pradeep*



इस दस्तावेज के निष्पादक दीपक गोयल के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 21/12/2022 को लिया गया ।

*Pradeep*

Pradeep Sorley  
Sub Registrar  
SUB REGISTRAR OFFICE  
SANWER



*Pradeep*



इस दस्तावेज के निष्पादक महेश चौहान S/O मांगीलाल चौहान के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 21/12/2022 को लिया गया ।

*Pradeep*

Pradeep Sorley  
Sub Registrar  
SUB REGISTRAR OFFICE  
SANWER


Witness Seal:



*Mukesh*



मुकेश सिंह






रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

**Property Details Annexure**

Property Id	1799202208237973						
Property Type	AGRICULTURAL LAND						
Property Landmark :	--						
Property Address :	ग्राम चितोड़ा तहसील सांवेर जिला इन्दौर म. प्र.						
Vikas Khand (development block) :	--						
R. I. Circle :	--						
Layout Details :	--						
Nazool/Sheet No :	--						
Plot Number :	--						
Khasra Details and Four Boundary Details							
Khasra Number	Khasra Area	Lagaan	Rin Pustika	East	West	North	South
126/1/3/2	.774	00	CLR1102558 2112	रोड	मुकेश की भूमि	खिरेला की शेष भूमि	रोड
Additional Uploads							
DOC_0.jpg							



11/07/20

मध्य प्रदेश



Registration and Stamp Department  
Madhya Pradesh



Witness Seal:



*Handwritten signature*



अनिल शुक्ला






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

District	INDORE		
Tehsil	SAWER		
Area Type	RURAL AREA		
Sub-Area Type	NON-PLANNING AREA		
Patwari Halka/Village	PATWARI HALKA NO. 4		
Village/Mohalla/Colony	CHITTODA (ROAD PAR)		
Is there more than one Buyer?	No		
Do the buyers belong to the same family?	No		
No of Buyers	0		
Do you want to disclose your share?	No		
Are there trees on agriland?	No		
Property 1 : Undiverted			
Area Details (Hectare)			
Total Area	Unirrigated one crop	Unirrigated two crop	Irrigated
0.774	0	0	0.774
Is there any construction done on the Agriculture land?			No

**TOTAL DUTY AND EXEMPTION**

Exempted Duty	0.0	Exempted Reg Fee	0.0
Total Payable Duty(INR)	134028.0		
Total Payable Registration fee(INR)	61859.0		
Consideration Amount(INR)	2062000		






Registration and Stamp Department  
Madhya Pradesh

Stamp Duty Seal

स्टाम्प शुल्क	103098
नगरीय शुल्क	0
जनापद पंचायत शुल्क	20620
उपकर	10310
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	134028

Pradeep Sortey  
Sub Registrar  
SUB REGISTRAR OFFICE  
SANWER







रजिस्ट्रार एवं स्टाम्प विभाग  
मध्य प्रदेश

I/We hereby authenticate and confirm the recitals of all the pages and entries of this deed with deed ID 31351687 and e-Stamp code 01011720122022019697, and also execute the deed with my/our signatures below

Signature of First Party/ Parties  
Name and Father's Name

*[Handwritten Signature]*

(विश्वेश)

(महेश चौराहा)

For Savitri Packaging,

Signature of Second Party/ Parties  
Name and Father's Name

*[Handwritten Signature]*

Proprietor.

(विश्वेश)  
(माहिती पत्रिका)  
विश्वेश चौराहा

(दीपक सिंग)

Signature of Third Party/ Parties  
Name and Father's Name

विश्वेश चौराहा S/O रामना रामना चौराहा  
Witness 1 Name

Address N-12 मन्डला न S1

Signature *[Handwritten Signature]*

ID Proof type and number

आधार नं. 324512317357

*[Handwritten Signature]*

(5)

विश्वेश S/O कुलकर्णी  
Witness 2 Name

Address गुरुवा बाबाबाबा देवीनगर


Signature *[Handwritten Signature]*


ID Proof type and number

आधार नं. 936225337835

*[Handwritten Signature]*


(4)








# रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश



This is an official copy of the original and digitally signed extract of Land Records in the Official Land Record database of Government of Madhya Pradesh created as E-Signatures (Digital) in the State of Madhya Pradesh on the date mentioned in the top right corner. This document represents a certified copy of the Land Record.

Digitally signed by the Registrar General of Madhya Pradesh  
 Date: 2022.12.28 11:03:36 IST  
 Reason: Digital Signature of Land Records  
 CUR No: 1188888888 (8778187)



मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।



Registration Seal

Registration and Stamp Department  
Madhya Pradesh

इस दरतावेज का इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन दिनांक 21/12/2022 को क्रमांक  
MP179112022A11274623 दे कर किया गया है। जिसमें 20 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क 134028


पंजीयन शुल्क 61859

प्रतिलिपि शुल्क 0

अधिक 0

योग 61859

Pradeep Soncy  
Sub Registrar  
SUB REGISTRAR OFFICE  
SANWER



MP179112022A11274623 | 01011220122022019697